

## प्रेस नोट दिनांक-12.07.2022

(1). आज दिनांक 12.07.2022 को पुलिस लाईन्स चित्रकूट में पीएसी रिक्लूट आरक्षियों के दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन किया गया। सर्वप्रथम अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री शैलेन्द्र कुमार राय द्वारा परेड की सलामी ली गयी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा द्वारा परेड की सलामी लेकर, परेड का निरीक्षण किया गया। इसके बाद परेड के प्रथम कमाण्डर रिक्लूट आरक्षी अरविन्द कुमार एवं द्वितीय कमाण्डर रिक्लूट आरक्षी अभिषेक मौर्य के नेतृत्व में परेड मार्चपास्ट की कार्यवाही करते हुये मंच के सामने से गुजरते हुए मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपने सम्बोधन में सभी 213 रिक्लूटों के उज्ज्वल भविष्य हेतु शुभकामनायें दी गयी एवं बताया कि प्रशिक्षण निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ के आदेशानुसार पुलिस लाइन चित्रकूट में अन्तिम रूप में कुल 215 रिक्लूट आरक्षियों द्वारा पुलिस लाइन में दिनांक-13.01.2022 से 06 माह का प्रशिक्षण प्राप्त करने आए जिनमें से 01 आरक्षी अस्वस्थ होने पर उसे मूल वाहिनी वापस कर दिया गया एवं 01 आरक्षी का चयन उ0नि0 उ0प्र0पु0 में चयन होने पर त्यागपत्र देकर कार्य मुक्त किया जा चुका है, शेष 213 रिक्लूट आरक्षियों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर अन्तिम परीक्षा में सम्मिलित हुए जिसमें सभी 213 रिक्लूट आरक्षी सफल घोषित हुए।

दीक्षांत सामारोह के मुख्य अतिथि श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा द्वारा इन्डोर/आऊटडोर की परीक्षाओं में अलग-अलग विषयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले रिक्लूट आरक्षियों को प्रशस्ति-पत्र एवं ट्राफी प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। रिक्लूट आरक्षी अब्दु समद द्वारा इन्डोर/आऊटडोर परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर बेस्ट कैडेट चुना गया जिसे मुख्य अतिथि महोदय द्वारा प्रशस्ति-पत्र एवं बेस्ट कैडेट ट्राफी देकर एवं परेड के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय कमाण्डर्स को ट्राफी एवं प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। श्री सुमेर सिंह प्रतिसार निरीक्षक, आरटीसी प्रभारी श्री आफाक खां, आरटीसी स्टाफ एवं दीक्षांत परेड सामारोह के उद्घोषक श्री केशव शिवहरे जी को उनके विशेष सहयोग हेतु प्रशस्ति-पत्र देकर पुरस्कृत किया गया।

मुख्य अतिथि महोदय द्वारा प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक, प्रतिसार निरीक्षक एवं सभी प्रशिक्षकों के कठिन परिश्रम व गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये आभार व्यक्त किया एवं रिक्लूट आरक्षियों को संबोधित करते हुए कहा कि परेड में शामिल होने पर आप सभी एवं आपके परिजनों को हृदय से बधाई देता हूं आप लोगों से इतना मनोहारी एवं सुंदर परेड ग्राउंड तैयार किया है इतना सुंदर परेड ग्राउंड दुर्लभ देखने को मिलता है इस सब के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं यहां के मैनेजमेंट को बधाई देता हूं जिन्होंने इतने कम समय में इतना बढ़िया तैयारी कर साज-सज्जा अच्छी रखी। यहां रिक्लूट आरक्षियों ने इतनी सुंदर परेड की और उनके प्रशिक्षकों ने जितनी सुंदर प्रशिक्षण दिया है उसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। महोदय द्वारा रिक्लूट आरक्षियों को सेवा के दौरान अपने जीवन में सादगी, अनुशासन, ईमानदारी, न्यायप्रिय, भेदभाव न करना, दयाभाव होने के साथ साहसी बने रहने को कहा गया।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी उत्तीर्ण आरक्षियों को शपथ दिलायी गयी तदोपरान्त आरक्षियों द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए धीमी चाल से मंच के बगल से गुजरने की कार्यवाही सकुशल सम्पन्न की गयी।

अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को मोमेन्टो प्रदान कर सम्मानित किया गया।

दीक्षांत सामारोह में अपर पुलिस अधीक्षक/नोडल अधिकारी प्रशिक्षण श्री शैलेन्द्र कुमार राय, क्षेत्राधिकारी नगर श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री सुबोध गौतम, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री एस0पी0 सोनकर, क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षणाधीन श्री हर्ष पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षणाधीन श्री राजकमल, समाजसेवी श्री पंकज अग्रवाल, कार्यक्रम के उद्घोषक श्री केशव शिवहरे अध्यक्ष समाजसेवी संस्था पायनियर्स क्लब, जनपद के सम्मानित पत्रकार बन्धु, पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहकर भव्य परेड की कार्यवाही को देखकर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन भी किया गया।

(2). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों को 20 लीटर कच्ची शराब व 25 अदद क्वार्टर देशी शराब म0प्र0 निर्मित के साथ गिरफ्तार किया गया ।

(i). उ0नि0 श्री विजय बहादुर यादव थाना मऊ तथा उनके हमराही आरक्षी शक्ति सिंह द्वारा बियावल पुल वहद ग्राम बियावल से अभियुक्त शिवसिंह पुत्र रामराज सिंह निवासी बियावल थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना मारकुण्डी में धारा 60 आबकारी अधिनियम अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

(ii). उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह थाना कोतवाली कर्वी तथा उनके हमराही आरक्षी द्वारा अरखनपुरवा से अभियुक्त रामगोपाल पुत्र चुन्नालाल निवासी कंठीपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 25 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

(3). आज दिनांक 12.07.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान “मिशन शक्ति” के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे:- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नोडल अधिकारी यूपी 112 के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक डायल-112 श्री रामजीत यादव के नेतृत्व में जनपद चित्रकूट में राघव प्रेक्षागार यूपी डायल-112 जनपद चित्रकूट में चल रहे 18 दिवसीय फ्रेशर कोर्स का आज दिनांक 12.07.2022 को यूपी डायल-112के नोडल अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार राय द्वारा समापन किया गया। यूपी डायल-112 के कुल 37 प्रशिक्षुओं को 18 दिवसीय फ्रेशर प्रशिक्षण में यूपी-112 प्रभारी निरीक्षक श्री रामजीत यादव और MDSL के प्रशिक्षक श्री ज्ञानेन्द्र सिंह MDT के संचालन, वेपन्स के रखरखाव, फायर सर्विस द्वारा आग पर काबू पाने के लिये विभिन्न तकनीकी, सॉफ्ट स्किल, SOP HRMS आदि के बारे में सभी लोगों को प्रशिक्षित किया गया । तथा अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय द्वारा परीक्षा में उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र वितरित किया गया और सभी लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया ।

(5). दिनांक-11.07.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया । पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया गया ।

(6). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में प्रभारी महिला चौकी मऊ उ0नि0 श्रीमती रामकुमारी तथा उनकी टीम द्वारा पति पत्नी के आपसी झगड़े को समाप्त करारक दम्पति जोड़े में सुलह कराते हुये शादी के अटूट बन्धन को टूटने से बचाया ।

उल्लेखनीय है कि श्री मती ऊषा देवी पत्नी देवनारायण निवासी नेवरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट तथा शान्ति देवी पत्नी मंगल निषाद नि0 बाबा कोटरा मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा महिला चौकी मऊ में प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके पति उनके साथ लड़ाई झगड़ा व मारपीट करते है । महिला चौकी प्रभारी एवं टीम द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर, उनके पतियों से सम्पर्क करके उन्हें महिला चौकी बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया । पतियों द्वारा भविष्य में अपनी- अपनी पत्नियों से लड़ाई झगड़ा न करने तथा पति के कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी । 02 दम्पति जोडो में आपसी सुलह होने पर महिला चौकी प्रभारी द्वारा दोनो जोडो को साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं पति-पत्नी के कर्तव्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी तथा यह भी कहा गया कि आपस में तारतम्यता बनाकर कर रहें ।

**समझौता करवाने वाली टीम:-**

1. महिला चौकी प्रभारी मऊ उ0नि0 श्रीमती रामकुमारी
2. महिला आरक्षी शिवानी राय